



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 288 राँची, मंगलवार, 20 मार्च, 2018 (ई०)

---

## राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

-----  
अधिसूचना

10 मार्च 2018

संख्या :- 03 नि०न०-05/2018 रा०नि०आ० : 340 – राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या-302 दिनांक- 06 मार्च 2018 द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 541(3) एवं धारा 541(4) तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 26 के तहत नगरपालिका आम एवं उप निर्वाचन, 2018 के निमित्त श्री धीरज प्रकाश, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तालझारी को राजमहल नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह– उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक 184 दिनांक 08 मार्च 2018 द्वारा श्री धीरज प्रकाश, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तालझारी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री शिवाजी भगत, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तालझारी को राजमहल नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित पदाधिकारी को सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित करता है।

एतद् द्वारा उक्त अधिसूचना के क्रमांक 10 के कॉलम 6 को निम्न रूप से संशोधित कर पढ़ा जाय :-

क्र० सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	पद का नाम	पूर्व में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	साहेबगंज	राजमहल नगर पंचायत	अध्यक्ष	श्री धीरज प्रकाश, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तालझारी	श्री शिवाजी भगत, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तालझारी

2. अधिसूचना संख्या 302 दिनांक-06 मार्च 2018 के शेष सभी अंश यथावत् रहेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह०/-(अस्पष्ट),**

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।

-----